



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 (ii)
PART II—Section 3 (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265]
No. 265]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1979/आषाढ़ 6, 1901
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27 1979/ASADHA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

गृह मंत्रालय

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 23 जून, 1979 को की गई निम्नलिखित
अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1979

का० आ० 373 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 371
च के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तार, उस अनुसूची में
विनिर्दिष्ट उपात्तरणों, यदि कोई हों, और निम्नलिखित और उपात्तरणों
के अधीन रहते हुए, सिक्किम राज्य पर करते हैं; अर्थात्

(1) उक्त अधिनियमितियों में, सिक्किम राज्य में ऐसी विधि, जो
प्रवृत्त नहीं है या ऐसे कृत्यकारी जो विद्यमान नहीं हैं, के प्रति निदेश का
अर्थान्वयन उस राज्य की तत्समान प्रवृत्त विधि या तत्समान विद्यमान
कृत्यकारी के प्रति निदेश के रूप में प्रवृत्त किया जायेगा :

परन्तु यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्समान कृत्यकारी
कौन है या यदि ऐसा तत्समान कृत्यकारी नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार यह
विनिश्चित करेगी कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और केन्द्रीय सरकार
का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिनियमिति के सुसंगत उपबंध में, यदि कोई
हो, उसके प्रारम्भ की वास्तविक अन्तिमिष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी

प्रत्येक अधिनियमिति के उपबंध सिक्किम राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त
होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अनुसूची

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम
(1)	(2)	(3)
1947	14	भौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
1949	38	वार्टर्ड अकाउण्टेंट अधिनियम, 1949

ह०/-

(नीलम संजीव रेड्डी)

राष्ट्रपति

[का० संख्या 11013/1/79- सिक्किम]

एस० शान्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The following notification made by the President of India
on the 23rd June, 1979 is published for general information—

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1979

S. O. 373(E)—In exercise of the powers conferred by clause (n) of article 371F of the Constitution, the President hereby extends to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule annexed hereto, subject to the following modifications, namely:—

- (1) Any reference in the said enactments to a law not in force, or to a functionary not in existence, in the State of Sikkim shall be construed as a reference to the corresponding law in force, or to the corresponding functionary in existence in that State:

Provided that if any question arises as to who such corresponding functionary is or if there is no such corresponding functionary the Central Government shall decide as to who such functionary will be and the decision of the Central Government shall be final.

- (2) Notwithstanding anything contained in the relevant provision, if any, of each such enactments for the commencement thereof, the provisions of each such enactments shall come into force in the State of Sikkim on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

SCHEDULE

Year	No.	Short title
1947	14	The Industrial Disputes Act, 1947
1949	38	The Chartered Accountants Act, 1949

(NEELAM SANJIVA REDDY)

President

[F.11013/1/79-SKM]

S. SANTHI, Joint Secy.